



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1025 राँची, गुरुवार, 8 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

6 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-162/2017-2706 (HRMS)-- श्री राकेश रंजन उराँव, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पदमा, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5339, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराते हुए श्री उराँव को निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी। पुनः उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा श्री उराँव के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5458, दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए श्री उराँव को विभागीय आदेश सं०-12011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया तथा पत्रांक-12213, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री उराँव द्वारा अपने पत्र, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-553, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2770, दिनांक 5 जुलाई, 2018 के माध्यम से उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री उराँव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य के समीक्षोपरान्त, श्री राकेश रंजन उराँव, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पदमा, हजारीबाग, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 14(i) के तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि पेंशनादि के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAKESH RANJAN ORAON 208851	श्री राकेश रंजन उराँव, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पदमा, हजारीबाग को निलंबन से मुक्त करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 14(i) के तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि पेंशनादि के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
